



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2013/अग्रहायण 27, 1935

No. 606] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2013/AGRAHAYANA 27, 1935

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसंबर, 2013

सा.का.नि.782(अ).-- केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी” के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए बीस रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (1) “आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी” के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) बीस रुपये ;

(ख) पांच रुपये ;

(2) उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं, डिजाइनों और संघटन के अनुरूप होंगे, अर्थात्:--

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	क्रकचनों की संख्या	धातु संघटन
(1)	(2)	(3)	(4)
बीस रुपये	वृत्ताकार 39 मिलीमीटर	180	चतुर्थक मिश्रधातु चांदी - 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकल - 5 प्रतिशत जस्ता - 5 प्रतिशत
पांच रुपये	वृत्ताकार 23 मिलीमीटर	100	निकल - पीतल तांबा - 75 प्रतिशत जस्ता - 20 प्रतिशत निकल - 5 प्रतिशत

डिजाइन**1. बीस रुपये****अग्र भाग**

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” मुद्रा-लेख उत्कीर्ण होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाहिनी परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। इस पर सिंह शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “20” भी होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के मुख भाग पर ऊपरी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण “आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी” और निचली परिधि पर अंग्रेजी में “ACHARYA TULSI BIRTH CENTENARY” सहित मध्य में “आचार्य तुलसी” का चित्र होगा। “आचार्य तुलसी” चित्र के नीचे वर्ष “1914-2013” उत्कीर्ण होंगे।

2. पांच रुपये**अग्र भाग**

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” मुद्रा-लेख उत्कीर्ण होगा, उसकी बाईं परिधि पर बगल में देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर बगल में अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। इस पर सिंह शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “5” भी होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के मुख भाग पर ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण “आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी” और निचली परिधि पर अंग्रेजी में “ACHARYA TULSI BIRTH CENTENARY” सहित मध्य में “आचार्य तुलसी” का चित्र होगा। “आचार्य तुलसी” चित्र के नीचे वर्ष “1914-2013” उत्कीर्ण होंगे।

3. मानक वजन तथा अनुज्ञात उपचार :-- “आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी” के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुज्ञात उपचार निम्नलिखित सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगा, अर्थात् :--

सारणी

सिक्के का अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संगठन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
बीस रुपये	30 ग्राम	चांदी में 1/500वां जोड़ कर या घटा कर अर्थात् चांदी में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा।	1/100वां जोड़ कर या घटा कर अर्थात् वजन में 29.7 ग्राम से 30.3 ग्राम तक का अंतर हो सकता है।
पांच रुपये	6 ग्राम	तांबा और जस्ता के लिए 1/100वां कम या ज्यादा अर्थात् तांबे में 74 से 76 प्रतिशत तक और जस्ते में 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक का अंतर हो सकता है और निकल के लिए 1/200वां तक जोड़ कर या घटा कर अर्थात् निकल में 4.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत तक का अंतर हो सकता है।	1/40वां जोड़ कर या घटा कर अर्थात् वजन से 5.85 ग्राम से 6.15 ग्राम तक का अंतर हो सकता है।

[फा. सं0 02/07/2013-सिक्का]

पंकज गुप्ता, अवर सचिव (एसपीएमसी एंड क्वाइन)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2013

G.S.R. 782 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) and clause (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement :-** (1) These rules may be called “The Coinage of Twenty Rupees and Five Rupees Coins to Commemorate the Occasion of “**ACHARYA TULSI BIRTH CENTENARY**” Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) The coins of the following denominations shall be coined at the mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of “**ACHARYA TULSI BIRTH CENTENARY**”, namely:-

(i) Twenty Rupees;

(ii) Five Rupees.

(2) The coins of the above denominations shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely:-

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Twenty Rupees	Circular 39 millimeters	180	Quaternary Alloy Silver – 50 per cent. Copper – 40 per cent. Nickel – 5 per cent. Zinc – 5 per cent.
Five Rupees	Circular 23 millimeters	100	Nickel-Brass Copper – 75 per cent Zinc – 20 per cent Nickel – 5 per cent

DESIGN

1. Twenty Rupees

OBVERSE

The face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery flanked with the word “INDIA” in English. It shall also bear the rupee symbol “₹” and denominational value “20” in International numerals below the Lion Capital.

REVERSE

The face of the coin shall bear the picture of “ACHARYA TULSI” in the centre, with inscription “आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी” in Devnagri script on the left upper periphery and “ACHARYA TULSI BIRTH CENTENARY” in English on lower periphery. The year “1914-2013” shall be inscribed below the picture of “ACHARYA TULSI”.

2. FIVE RUPEES

OBVERSE

The face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery flanked with the word “INDIA” in English. It shall also bear the rupee symbol “₹” and denominational value “5” in International numerals below the Lion Capital.

REVERSE

The face of the coin shall bear the picture of “ACHARYA TULSI” in the centre, with the inscription “**आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी**” in Devnagri script on upper periphery and “ACHARYA TULSI BIRTH CENTENARY” in English on lower periphery. The year “1914-2013” shall be inscribed below the picture of “ACHARYA TULSI”.

3. Standard weight and remedy allowed: - The standard weight of the coins of the following denominations, coined to commemorate the occasion of “ACHARYA TULSI BIRTH CENTENARY” and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the following Table below: -

TABLE

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Twenty Rupees	30 grams	1/500 th plus or minus for Silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus that is to say, the weight could vary from 29.7 grams to 30.3 grams.
Five Rupees	6 grams	1/100 th plus or minus for Copper and Zinc, that is to say, Copper could vary from 74 per cent. to 76 per cent and Zinc from 19 per cent to 21 per cent and 1/200 th plus or minus for Nickel that is to say, Nickel could vary from 4.5 per cent to 5.5 per cent.	1/40 th plus or minus that is to say, the weight could vary from 5.85 grams to 6.15 grams.

[F. No. 02/07/2013-Coin]

PANKAJ GUPTA, Under Secy. (SPMC & Coin)